

- 2 Improving Productivity.
- 3 Introduction Energy Conservation measures.
- 4 Improving availability of equipment through effective maintenance.
- 5 Improving product-mix, making value added items and meeting customer's requirements.
- ( Reduction in consumption viz. coke, energy, stores & spares, etc.
- 7 Investment for modernisation /technological upgradation.

#### बैलाडिला स्थित लौह अयस्क खान

2758. श्री राघवजी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिला की लौह खदान नं० ग्यारह-बी से लोहे का खनन किये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद शर्मा): (क) से (घ) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एन०एम०डी०सी०) को मैसर्स निष्पन डेन्तो इस्पात लि० (एन०डी०आई०एल०) के सहयोग से बैलाडिला निक्षेप II-बी का विकास करने के लिए 12/13 जून, 1995 को सरकार की मंजूरी दी गई थी। इस कार्य के लिए एन०एम०डी०सी० और एन०डी०आई०एल० ने 10 जुलाई, 1995 को एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि० 31.7.95 को निर्गमित की गई थी। एन०एम०डी०सी० ने निक्षेप II-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु भी मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडिला निक्षेप-II-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए अपने दिनांक 6.1.96 के पत्र के माध्यम से खान मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी जैसा कि एम०एम०आर०डी० अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है। केन्द्र सरकार की

मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्तों, जैसे संयुक्त उद्यम कंपनी की साम्या पूंजी में 20% की राज्य सरकार की भागीदारी, राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना, राज्य में से ही, विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमिकों की नियुक्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा उस क्षेत्र में स्कूलों/औषधालयों की स्थापना इत्यादि, शामिल करने का प्रस्ताव किया था। खान मंत्रालय ने 21 मार्च, 1996 को, एम०एम०आर०डी० अधिनियम, 1957 और खनिज रहत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि इस हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० और एन०एम०डी०सी० इन शर्तों पर एकमत हों और एक अनुबन्ध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई के जरिए एक हों, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.96 के पत्र द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन०एम०डी०सी० ने खनिज रहत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों को शामिल करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के माध्यम से इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह एन०एम०डी०सी० को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति भेजने का निर्देश दे।

संसद सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त एवं श्री जीवन राय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने 16.4.96 को II-बी के खनन पट्टे के हस्तान्तरण के निर्णय के संबंध में स्थगन आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 10.5.96 को अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी थी। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का प्रवर्तन 3 सप्ताह की अवधि के लिए 31.5.96 तक, स्थगित कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी की

याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अधिकारिता आधार पर मूल रिट याचिका को खारिज करने के विरुद्ध कंपनी द्वारा की गई अपील और गुरुदास दासगुप्त और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटारा नहीं हो जाता। यह अपीलें अभी नियमित बैंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II की हस्तान्तरण के विरुद्ध जुलाई, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित मुकदमा भी दायर किया गया है।

यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, यह मामला न्यायालय में संबन्धित है इसलिए सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

#### Total Value of Enemy Property

2759. SHRIMATI BASANTI  
SARMA:  
DR. SHRIKANT RAM-  
CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

	Invested Amount (Rs.)	Maturity Amount (In ' (In Rs.)
1. Treasury Bills (as on 30.8.96)	58,63,86,400	66,20,00,000
2. Amount in current A/C (as on 2.8.96)	11,27,506	
3. Buildings and landed properties (as in 1970/71)	5,65,00,000(approximately)	
4. Shares	2,06,00,000(Facc value approx).	

As the values pertain to different points of time, it would not be appropriate to aggregate them.

(b) Except the amount lying in the Current Account, the entire property is put to productive use. The amount in the Current Account is required to be kept to

(a) the total value of the enemy property which is with the Custodian of Enemy Property for India;

(b) what part of the property is lying dead and what part of the property is put to productive use;

(c) what will finally be done to this property;

(d) what is the historical source of such property; and

(e) what is the mechanism to monitor work of the Custodian?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Details of the value of Enemy Property with the Custodian of Enemy Property are as follows:

meet expenses like property tax, unforeseen repairs, etc.

(c) The Enemy Property Act, 1968 as amended from time to time, provides for the continued vesting of the enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India.